



CIN: L28121MP1995PLC009170 GSTIN: 23AAACG6274B1Z2 PAN: AAACG6274B Regd. Office: Plot No. 32-33, Sector-F, Sanwer Road, Industrial Area, Indore-452 015 (M.P.) India

Phone: 0731-2723202

Email: gorani.industries@yahoo.com Website: www.goraniindustries.com

08th February, 2025 Indore

To
The BSE Limited
The Corporate Relationship Department,
Pheeroj Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street, Mumbai

Ref: Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub.:- Submission of publications of newspaper advertisement

Dear Sir/ Ma'am.

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published newspaper advertisement with respect to the unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended on 31st December, 2024 in the newspapers viz. - Free press, (English) and Choutha Sansar (Hindi) on 08th February, 2025.

Please find enclosed herewith copies of the aforesaid publications.

Please take the above on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Gorani Industries Limited

Nakul Gorani (Holding DIN: 06543317) (Whole-time Director)

Encls: As above.

Russia quiet on humanitarian corridor offer



Agencies

There was no comment on the fresh offensive from officials in Kyiv, and Russian statements on the extent of any fighting could not be verified. Ukraine's President Volodymvr Zelenskvv on Thursday praised his troops for the Kursk offensive and said, "The



plains the meaning of the principle of 'peace through strength".

Zelenskyy's office accused Moscow of "indifference" to the fate of its own citizens. "We are ready to open a humanitarian corridor from the Kursk region to the depths of Russia in response to an official request of the Russian Federation. Apparently, the Russians do not want such a humanitarian corridor, because we have not received a corresponding request from them." The Kremlin spokesman Dmitry Peskov claimed Russia was doing "everything" it could for Russian civilians in Kursk; however Moscow refused to comment publicly on the idea of a humanitarian corridor.

कार्यालय नगर पालिक निगम, डन्द्रीर

कार्य की

समयावधि

240 दिवस

₹1,59,80,923/

निविदा प्रपत्र का

₹ 80.000/-

(उद्यान विभाग सिविल मुख्यालय) E-mail: gardendepartmentcivil@gmail.com

निविदा आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदार से (MPUADD Road & Bridge, SOR/ NON SOR, DATE 02.08.2021 पर आधारित) ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण https://mptenders.gov.in/ पर

कार्य का नाम

उद्यान (सिविल) विभाग मुख्यालय झोन क्रमांक 12 के

अंतर्गत साधु वासवानी नगर उद्यान को आदर्श उद्यान वे

किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

H-1B initial regn to begin on March 7: USCIS

Agencies

The initial registration period for the H-1B visas, the most sought-after by Indian IT professionals, for fiscal 2026 will commence on March 7 and close on March 24, a federal agency has said. The H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US companies to employ foreign workers in speciality occupations that require theoretical or technical expertise.

Technology companies depend on it to hire tens of thousands of employees each year from countries like India and China.

The initial registration period for the most soughtafter H-1B visas for foreign guest workers for fiscal 2026 will open at noon Eastern Time (10:30 pm IST) on March 7 and run through noon Eastern Time (10:30 pm IST) on March 24, US Citizenship and Immigration Services (USCIS) said on Wednesday.

During this period, prospective petitioners and representatives must use a USCIS online account to register each beneficiary electronically for the selection process and pay the associated registration fee for each beneficiary, it said.

दिनांक: 06.02.2025

अंतिम तिथि

10-03-2025

6.00 PM

कार्यपालन यंत्री उद्यान सिविल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

Scheme on Russian oligarchs ends

WASHINGTON

The Trump administration's Justice Department has disbanded a Biden-era programme aimed at seizing the assets of Russian oligarchs as a means to punish Russia for its invasion of Ukraine.

The move to disband Task Force KleptoCapture is one of several moves undertaken by the Justice Department under the new leadership of Attorney General Pam Bondi that presage a different approach toward Russia and national security issues.

The department also ended the Foreign Influence Task

Force, which was established in the first Trump administration to police influence campaigns staged by Russia and other nations aimed at sowing discord, undermining democracy and spreading disinformation. The US government in the run-up to the 2024 presidential election aggressively moved to disrupt propaganda campaigns by Russia, which officials have assessed had a preference for Trump. In a memo addressed to all employees Wednesday the first day of Bondi's tenure the attorney general's office stated that "attorneys assigned to those initiatives shall return to their prior posts, and rethose efforts shall be committed to the total elimination of Cartels and TCOs" - an acronym for Transnational Criminal Organizations. The Trump administration has made combating the illicit flow of fentanyl into the US a priority. The opioid is blamed for some 70.000 overdose deaths annually. The Justice Department on Wednesday also shifted its approach to enforcement of a World War II-era law known as the Foreign Agents Registration Act, which requires people to disclose to the government when they lobby in the US on behalf of foreign governments -- including Russia -- or political

Scientists produce Ist kangaroo embryo

SYDNEY

Australian scientists have achieved a world first, creating a kangaroo embryo through in vitro fertilization (IVF). This breakthrough offers hope for preserving endangered marsupials as well as improve the genetic diversity of endangered species such as the koala, Tasmanian devil, northern hairynosed wombat and Leadbeater's possum, lead researcher Andres Gambini said. Researchers at the University of ized eastern grey kangaroo eggs with sperm using intracytoplasmic sperm injection (ICSI), a technique common in human IVF. While a live birth requires further development, this achievement provides crucial insights into marsupial reproduction. The eastern grey kangaroo, a non-endangered species, was chosen for the experiment.

Gambini emphasized the importance of refining egg and sperm collection and preservation techniques to safeguard the genetic material of these unique animals.

MOSCOW/KYIV

Russia said on Friday that it was battling a new Ukrainian offensive in Kursk even as Kyiv offered a humanitarian corridor for civilians in the Russian region it has invaded and partly occupied. Russian President Vladimir Putin admitted the situation there was "very difficult" as he met with regional governors.

निविदा विज्ञप्ति क.: 48/उ.सिविल/

24-25/जी-01

आईडी

2024

UAD

401120_1



Queensland successfully fertilsources currently devoted to

Ideas Create, Values Protect

Consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2024

(₹ in Crores)

		Quarter ended			Nine months ended		Year ended
	Particulars	December 31, 2024 (Reviewed)	September 30, 2024 (Reviewed)	December 31, 2023 (Reviewed)	December 31, 2024 (Reviewed)	December 31, 2023 (Reviewed)	March 31, 2024 (Audited)
1	Total income from operations	1,996.62	2,842.26	2,414.55	7,175.45	6,574.95	9,601.57
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	181.29	319.31	89.16	605.30	219.50	437.39
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	181.29	319.31	89.16	605.30	219.50	437.39
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	155.18	137.02	152.28	377.50	324.96	528.04
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	110.76	239.25	138.44	393.27	341.62	673.94
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1/- Per Share)	92.06	91.88	89.89	92.06	89.89	89.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)						4,335.66
8	Earnings Per Share (EPS) in Rupees (Face Value of ₹ 1/- Per Share)						
	- Basic (Not annualised)	1.69	1.52	1.39	4.16	2.80	4.68
	- Diluted (Not annualised)	1.68	1.51	1.39	4.15	2.80	4.68

- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended consolidated financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of consolidated financial results are available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.edelweissfin.com)
- The consolidated financial results of Edelweiss Financial Services Limited ('EFSL' or 'the Company') and its subsidiaries and trusts (together referred as 'Group') for the quarter and nine months ended 31 December 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07
- The consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31 December 2024 have been subjected to review by the Statutory Auditors of the Company and the auditors have issued an unmodified review report

GORANI INDUSTRIES LIMITED CIN: L28121MP1995PLC009170

नोट : निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर र्ह

Regd. Office: 32-33, Sector-F, Sanwer Road Industrial Area, Indore-452 015 (M.P.) Phone: 0731-2723202-3, E-mail: gorani.industries@yahoo.com, Website: www.goraniindustries.com Unaudited Financial Results for the Quarter and

S.		Quarte	Nine Months Ended	
No.	Particulars	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
1	Total Income from Operations	1293.77	1074.17	3578.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or extraordinary items)	55.85	5.84	70.33
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	55.85	5.84	70.33
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	41.33	4.37	52.04
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	41.33	4.37	52.04
6	Equity Share Capital	536.26	536.26	536.26
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year		-	-
8	Earnings per share (in ₹) (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic : (b) Diluted :	0.77 0.77	0.08 0.08	0.97 0.97

- A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months ended on 31.12.2024 Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company's Website www.goraniindustries.com.
- B. The impact on net profit/(Loss), total comprehensive income or other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of a foot note: N.A. C. Exceptional items adjusted in the statement of

profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.



For and on behalf of the Board **Nakul Gorani** Sanjay Gorani Managing Director DIN: 00055531 Whole Time Director DIN: 06543317

PITHAMPUR POLY PRODUCTS LIMITED website: www.ppplonline.com

CIN L25202MP1994PLC008513

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE THIRD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31st december 2024

PARTICULARS		Quarter Ended		Nine Months Ended	
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
Total income from operations (Net)	12.88	5.39	38.20	50.75	81.39
Net Profit/ (Loss) before tax and Exceptional and/or Extraordinary items	-1.10	-6.78	-2.46	23.55	-0.77
Net Profit/ (Loss) after Exceptional and/or Extraordinary items and before tax	-1.10	-6.78	-2.46	23.55	-0.77
Net Profit/ (Loss) after tax and Exceptional and/or Extraordinary items	-0.51	-5.07	3.23	17.63	-166.07
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-0.51	-5.07	3.23	17.63	-166.07
Equity Share Capital (Face Value of share is Rs. 10/- Each)	487.40	487.40	487.40	487.40	487.40
Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of Previous year)					
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations) (of Rs. 10/- each)					
Basic (in Rs.):	-0.01	-0.10	0.07	0.36	-3.41
Diluted (in Re.):	0.16	0.57	0.08	0.70	-3.41

Note: a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results of 31st December 2024, filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (LODR) Regulations 2015. The full format of the Quarterly/Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and the Company website (www.ppplonline.com). b) The detailed financial results and these extracts were reviewed and taken on record by Board of Directors in its meeting held on

06th February 2025. Also Audit Report have been carried out by the statutory Auditor of the company.

c) There were no exceptional and extraordinary items during the quarte d) The company has a single operated segment viz. "PP Woven Sacks"

e) These financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India. For and on behalf of Pithampur Poly Products Limite

R.K. Tekriwa Date: 6th February 2025 DIN 00011492

Standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2024

		Quarter ended			Nine mont	Year ended	
	Particulars	December 31, 2024 (Reviewed)	September 30, 2024 (Reviewed)	December 31, 2023 (Reviewed)	December 31, 2024 (Reviewed)	December 31, 2023 (Reviewed)	March 31, 2024 (Audited)
1	Total income from operations	147.07	150.35	(140.67)	271.98	227.25	1,027.68
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.47	28.77	(257.08)	(63.56)	(166.35)	515.53
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.47	28.77	(257.08)	(63.56)	(166.35)	515.53
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.23	29.17	(195.01)	(50.26)	(36.33)	695.21
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.23	29.17	(195.01)	(50.26)	(36.33)	694.78
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1/- Per Share)	92.06	91.88	89.89	92.06	89.89	89.89
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)						5,372.96
8	Earnings Per Share (EPS) in Rupees (Face Value of ₹ 1/- Per Share)						
	- Basic (Not Annualised)	0.10	0.32	(2.17)	(0.55)	(0.40)	7.73
	- Diluted (Not Annualised)	0.10	0.32	(2.17)	(0.55)	(0.40)	7.72

Mumbai, 07 February 2025

- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended standalone financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 & 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone financial results are available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.edelweissfin.com).
- The standalone financial results of Edelweiss Financial Services Limited ('EFSL' or 'the Company') for the quarter and nine months ended 31 December 2024 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 07 February 2025.
- The standalone financial results of EFSL for the quarter and nine months ended 31 December 2024 have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company and the auditors have issued an unmodified review report.



On behalf of the Board of Directors

Rashesh Shah Chairman DIN: 00008322

🛈 Edelweiss



Home Loans | Insurance | Business Loans | Asset Management | Wealth Management

Edelweiss Financial Services Limited

CIN: L99999MH1995PLC094641, Regd. Office: Edelweiss House, Off. CST Road, Kalina, Mumbai - 400 098 Tel: +91-22-4009 4400 Fax: +91-22-4086 3610 Website: www.edelweissfin.com

कोई टेंडर नहीं होगा, बच्चों को सीधे मिल जाएगी स्कूटी

अफवाहों पर बोले सीएम डॉ.मोहन यादव

मोपाल,(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी पात्र मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी देने का निर्णय लिया है। शासकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्ष में टॉप करने वाले बच्चों को उनकी पसंद के अनुसार इलेक्ट्रिक या पेट्रोल वाली स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि टेंडर निकालकर स्कूटी दी जाएगी, यह पूर्णतः निराधार है। जो पात्र हैं उन्हें स्कूटी अवश्य मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारी सरकार पात्र मेधावी विद्यार्थियों को भी जल्द ही लैपटॉप भी वितरित करेगी। उन्होंने कहा है कि मेधावी छात्र-छात्राएं स्कूटी और लैपटॉप मिलने के बाद अपना भविष्य बनाने और उच्च शिक्षा पाने के लिए और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया को जारी संदेश में यह बात कही। खबरें आ रही थीं कि टेंडर के बाद बच्चों को स्कटी मिलेगी। ऐसी खबरों पर सीएम डॉ.मोहन यादव ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कोई टेंडर नहीं होगा। बच्चों को सीधे स्कटी दी जाएगी। उनके च्वाइस के हिसाब से पेट्रोल या ई स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को लैपटॉप भी जल्द देंगें। इसके लिए लगे हुए हैं।

तिब्बत को आजाद करने की मांग सभी भक्त कर सकें कैलाश मानसरोवर यात्रा

मोपाल,(निप्र)। राजधानी भोपाल में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने पत्रकार वार्ता कर कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने तिब्बत को आजाद करने की मांग की है। सरसंघ चालक डॉ. मोहन भागवत की अनवरत प्रेरणा से मंच अपने लक्ष्य ओर उद्देश्यों को कार्य कर प्रगति रत हैं। बता दें कैलाश मानसरोवर की मिक्त एवं तिब्बत की आजादी के लिए निरंतर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है। आरएसएस के इंद्रेश भाई ने कहा कि उन्हें अपने ईष्ट की यात्रा के लिए भी अनुमति मांगनी पडती है। उन्होंने कहा कि हमें चीन से कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना होगा और तिब्बत को आजाद कराना होगा। सालों से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि चीन से कैलाश मानसरोवर को मक्त कराया जाए। तिब्बत को आजाद कराया जाए। जिससे सभी भक्त आसानी से मानसरोवर की यात्रा कर सकें।

मध्यप्रदेश के घुड़सवारों ने जीते चार पदक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी बधाई

गोपाल,(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कॉनकॉड क्रास कंट्री नेशनल इवेंटिंग प्रतियोगिता २०२५ में मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के प्रतिमाशाली घुड़सवारों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने अकादमी के फराज खान और लखा सिंह को कांस्य पदक मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रतियोगिता के प्री नॉइज क्रॉस कंट्री मुकाबले में मोक्ष पटेल और श्री हमजा अकील को भी बधाई दी है। जिन्होंने रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन चारों खिलाड़ियों ने मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। प्रचलित खेलों के साथ विशिष्ट खेलों में प्रदेश के खिलाडियों की सफलता प्रसन्नता का विषय है। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के मेरट में आयोजित की गई थी।

आईपीएस मीट में बोले सीएम डॉ.मोहन यादव

'परेशानी में पुलिस ही भगवान नजर आती'

मुख्यमंत्री ने समझाया सच्ची पुलिसिंग का मतलब 🔳 भोपाल में दो दिवसीय आईपीएस मीट **■** सीएम मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को किया संबोधित 🖿 सीएम ने थानों को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए

> भोपाल,(निप्र)। भोपाल में आईपीएस मीट हो रही है। मीट में पूरे प्रदेश से

आईपीएस अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने आईपीएस मीट का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के अधिकारियों को संबोधित भी किया है। संबोधन के दौरान सीएम मोहन यादव

अविवाहित पुत्री,विधवा और

परित्यक्ता को परिवार पेंशन

ने कहा कि कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मेरा पुलिस से ज्यादा प्रेम है। लेकिन ये सच है कि

मप्र सरकार देगी अपने

कर्मचारियों को बंपर छुट्टी

भोपाल.(निप्र)। मध्यप्रदेश सरकार ने

अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बडी

राहत देने की तैयारी की है। राज्य सरकार

जल्द ही नए पेंशन नियम लाग करेगी।

जिसमें 25 साल से अधिक उम्र की

अविवाहित पुत्री, विधवा, परित्यक्ता को

परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। सेवा

पुस्तिका की का प्रावधान नहीं रहेगा।

अवकाश नियमों में भी बदलाव होंगे।

मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के

अवकाश नियमों में लगभग 50 साल बाद

बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के

तहत नए कर्मचारियों को छुट्टियों के लिए

लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

अधिकारियों ने नए अवकाश नियमों पर

विस्तार से चर्चा की है। सरकार जल्द ही

पुलिस 24 घंटे काम करती है। किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया पुलिस को ही देना पड़ती

परेशानी में पलिस ही भगवान नजर आती

उन्होंने कहा कि परेशानी में पुलिस ही भगवान नजर आती है। पुलिस सबकी आशा का केंद्र बनते जा रही है। जो काम पुलिस के नहीं हैं, उनमें भी पुलिस से मदद की उम्मीद की जाती है।

जाति से अपराधी न समझे

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि कई जातियों को हमने आपराधिक घोषित कर दिया है। लेकिन हमारी ये मानसिकता अंग्रेजों के वजह से हो गई। जबकि ऐसे लोगों का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत काम के हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि नट जाति के लोगों से पहले गुप्तचर का काम लिया जाता था, अपनी कला-कौशल के बल पर वे बहुत काम आते थे। इसीलिए पुलिस को अपनी मानसिकता में भी परिवर्तन लाना होगा।

सबके अधिकारों की करें रक्षा

उन्होंने अधिकारियों को पुलिसिंग की भावना को समझाया है। साथ ही कहा कि जिस प्रकार

कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नए

नियम लागु करेगी। ये नियम पेंशन और

छुट्टियों से जुड़े हैं। अविवाहित, विधवा

और परित्यक्ता बेटियों को भी परिवार

पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद

कर्मचारियों को अब सेवा पुस्तिका नहीं दी

जाएगी। छट्टियों के नियमों में भी बदलाव

होंगे। वित्त विभाग ने इन बदलावों का

डाफ्ट तैयार कर लिया है। वित्त विभाग की

ओर से एक समिति ने इन नए नियमों का

प्रारूप तैयार किया है। पेंशनर्स

एसोसिएशन लंबे समय से पेंशन नियमों में

बदलाव की मांग कर रही थी। सरकार ने

उनकी मांगों को सुनते हुए यह कदम

उठाया है। इस समिति में वित्त विभाग के

सदस्यों के अलावा. सामान्य प्रशासन

विभाग के सचिव, पेंशन संचालनालय के

संचालक और रेरा के वित्तीय सलाहकार

मिलिंद वाईकर भी शामिल थे।

किसान अपनी फसल में से कई वर्गों को उपज का हिस्सा देता है, उसी प्रकार पुलिस की भी ये भावना होनी चाहिए जो हमें मिला केवल वो हमारा नहीं है। पुलिस को मिला पॉवर सबका पॉवर है। सबके अधिकारों के लिए अपने पॉवर का इस्तेमाल करना ही सच्ची पुलिसिंग है। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पुलिस के सामने चुनौती होती है कि कानून का पालन कराना है, दक्षता दिखानी है लेकिन ये वसंवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। मुझे मध्यप्रदेश पुलिस पर गर्व है जिसने कई मामलों में अपनी अच्छी पोजीशन से बनाई है।

थानों को पुरस्कृत करने के दिए निर्देश

वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अंत में डीजीपी कैलाश मकवाना से कहा कि प्रदेश में भी पुलिस थानों को पुरस्कृत करने की परंपरा शुरू हो। उन्होने कहा कि जिस प्रकार केन्द्रीय गृह मंत्रालय थानों को पुरस्कृत करता है। इसी प्रकार के पैरामीटर पर मध्यप्रदेश में पुलिस थानों को प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पुरस्कृत करने की परंपरा शुरू करें। प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर थानों को पुरस्कृत किया जाए।

सौरभ शर्मा मामला

चेतन गौर ने कहा– कार मेरी,सौरभ करता था उपयोग

लोकायुक्त पुलिस जल्द पेश करेगी चालान

भोपाल.(निप्र)। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के काले धन मामले में ईडी की जांच तेजी से चल रही है। सौरभ के करीबी चेतन सिंह गौर से भोपाल जेल में छह घंटे पुछताछ हुई। चेतन ने 54 किलो सोने और 10 करोड़ रुपये नकद वाली कार के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। उसने कहा कि कार उसके नाम पर है. लेकिन सौरभ इस्तेमाल करते थे। ईडी भी सौरभ से पूछताछ कर सकती है। लोकायुक्त पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और जल्द ही चालान पेश कर सकती

है। आयकर विभाग भी बयान दर्ज करने की तैयारी में है।

यह मामला मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ा है। सौरभ पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और ईडी काली कमाई की जांच कर रही है। गुरुवार को ईडी की टीम भोपाल जेल पहुंची और सौरभ के करीबी चेतन सिंह गौर से छह घंटे तक पूछताछ की। चेतन से पूछताछ का मुख्य मुद्दा 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपये नकद से भरी कार थी, जो मेंडोरी गांव में मिली थी। यह कार चेतन के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

हिंदू लड़की..मुस्लिम युवक लव जिहाद पर हाइवोल्टेज ड्रामा

भोपाल कोर्ट में युवक के चेहरे पर लातों की बारिश

भोपाल,(निप्र)। राजधानी भोपाल में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की कोर्ट मैरिज करने के इरादे से भोपाल कोर्ट पहुंचे, लेकिन हिंदू संगठनों ने इसकी भनक लगते ही युवक को कोर्ट परिसर में ही पीट दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें युवक की पिटाई होते

हुए देखा जा सकता है। मामला भोपाल जिला अदालत का है। जहां एक मुस्लिम युवक और एक हिंदू लड़की कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंचे थे। युवक नरसिंहपुर का रहने वाला है और वह युवती से शादी करने के लिए भोपाल आया था। दोनों ने कोर्ट मैरिज की प्रोसेस शरू कर दी थी. लेकिन इसकी भनक हिंदू संगठनों को हो गई। संगठन के कार्यकर्ता भी कोर्ट परिसर में पहुंच गए और युवक से बहस करने लगे।

हिंदू संगठनों के कार्यकताओं ने युवक से उसके इरादों के बारे में सवाल किए और उसे लव जिहाद का आरोपी बताया। इसके बाद संगठन के कार्यकताओं ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कोर्ट परिसर के अंदर हिंदू संगठन के लोग युवक को पीटते हए दिखाई दे रहे हैं।

नरसिंहपुर का रहने वाला है

जानकारी के मुताबिक नरसिंहपुर का रहने वाला शहजाद अहमद पिपरिया की एक हिंदू लड़की से शादी करने भोपाल आया था। दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि शहजाद ने लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर भोपाल लाया था। उन्होंने बताया कि वकीलों से जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक को पीटते दिख रहे हैं। इस बारे में चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि हिंदू लडिकयों के साथ बढती ऐसी घटनाओं के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने युवक की पिटाई कर दी।

मंडी में भूखंडों की नीलामी पर विवाद व्यापारियों ने की नीलामी रोकने की मांग

विदिशा ,(निप्र)। विदिशा के मिजार्पुर कृषि उपज मंडी में भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया है। अनाज तिलहन संघ के पदाधिकारियों ने विधायक मुकेश टंडन से मुलाकात कर नीलामी प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की। बैठक मे जिले में बढ़ते धान उत्पादन को लेकर मुद्दा उटा, जिसके कारण वर्तमान मंडी की क्षमता अपर्याप्त हो गई है। विधायक टंडन ने बताया कि व्यापारियों से हुई चर्चा में धान के लिए अलग मंडी बनाने का प्रस्ताव सामने आया है।

अन्नपूर्णा आश्रम के संत दीपक दास बने महामंडलेश्वर

(बाबू पांचाल)

आष्टा। प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा स्थित अन्नपूर्णा आश्रम के संत दीपक दास को महामंडलेश्वर के पद से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय पंच तेरा त्यागी और अखिल भारतीय अनी दिगम्बर अखाडा की ओर से आयोजित विशेष समारोह में उनका पद्राभिषेक किया गया, जिसमें परंपरागत चादर विधि भी संपन्न की गई। आष्टा के भोपाल-इंदौर मार्ग पर पार्वती नदी के तट पर स्थित अन्नपर्णा आश्रम की बागडोर संत दीपक दास ने त्यागी बाबा के निधन के बाद संभाली थी। उनकी इस उपलब्धि से परे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। जैसे ही यह खबर आष्टा के लोगों तक पहंची. शहरवासियों ने उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। यह नियक्ति न केवल दीपक दास के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि समुचे सीहोर जिले और आष्टा के लिए गौरव का क्षण है। अन्नपर्णा आश्रम की स्थापना से लेकर आज तक यह स्थान आध्यात्मिक



गतिविधियों का केंद्र रहा है, और अब महामंडलेश्वर दीपक दास की अगुवाई में इसकी गरिमा और बढने की उम्मीद है। दिगंबर अखाड़े ने किया पदाभिषेक बनाया महामंडलेश्वर अन्नपुर्णा आश्रम के दीपक दास जी जो की हाल ही में महामंडलेश्वर की पदवी मिली है उन्होंने आज बताया कि दिगंबर अखाड़े के अध्यक्ष मोनी बाबा .महामंत्री बलराम दास . मंत्री विष्ण दास. महामंडलेश्वर समरन दास .अखाडे के उत्तराधिकारी जगतगुरु रामचंद्र दास. महामंडलेश्वर धर्मेंद्र दास द्वारा और उनकी उपस्थिति में पट्टाभिषेक किया गया।

添BRG

बी.आर.गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजिकृत कार्यालय : ३-ए, अग्रवाल नगर, इन्दौर -452001 (म.प्र.) फोन : (+91-731) 2403831, 4096902 इमिल : cs@brginfra.in वेबसाइट : www.brginfra.com

वीढिवो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") और/या अन्य ऑढियो विजुअल ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 04/2024-25 ा आम बैठक के बारे में जानकारी/सूच

सदस्यों को इसके द्वारा स्थित किया जाता है कि बी.आर.गोयल इंफ्रास्टक्चर लिमिटेड ('कंपनी') के इक्विटी शेयरवारकों की 04 / 2024-25 असावारण आन बैठक ("ईजीएम") कंपनी अधिनियम के लागु प्रावधानों के अनुपालन में. वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी") और / या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमी ("ओएवीएम") के माध्यम से सोमवार, 10 मार्च 2025 को दोपहर 03:00 बजे आईएसटी पर आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवयकताएं विनियम, 2015 कॉपरिट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी परिपत्र') द्वारा जारी मामले पर सभी लागु परिपत्रों के साथ पढ़ा जाता है, जो 03 फरवरी 2025 के ईजीएम नोटिस मे निर्धारित व्यवसायों को सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना संचालित करने के लिए है एक सामान्य स्थान पर।

सदस्यों को एमयुएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के मध्यम से ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य इसे https://instavote.linkintime.co.in पर एक्सेस कर सकते हैं। ईजीएन की कार्यवाही कंपनी के पंजीकत कार्यालय में आयोजित की जाएगी. जिसे ईजीएम का स्थान माना जाएगा।

ईजीएन की सुचना, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से उचित समय पर उन सदस्य को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डिपॉजिटरी') के साथ एनसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुसार पंजीकृत हैं।

बीमैट फॉर्म में शेवर रखने वाले सदस्यों जिन्होनें अब तक अपने ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/कंपनी/रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसकर एजेंट ("आरटीए") के साथ पंजीकृत नहीं करवाये हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस / लॉगिन कंडेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/कंपनी/रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसकर एजेंट ("आरटीए") के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत / अपडेट करें।

कंपनी अपने सदस्यों को ईजीएम रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों वं माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने कि स्विधा प्रदान करेगी। ईजीएन में शामिल होने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया वे निर्देश जिसमें डीमैट और भीतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन्होनें अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे ई-बोटिंग (ईजीएम रिमोट ई-बोटिंग और ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना वोट ढाल सकते हैं, ईजीएम के नोटिस के हिस्से के रूप में प्रदान किए जाएंगे। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते है और भाग ले सकते हैं। ई-बोटिंग कि सुविधा के लिए कंपनी द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

वीसी/ओएवीएम सुविधा के मध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 कि धारा 103 के तहत कोरन की गणना के लिए गिना जाएगा ईजीएन की सूचना कंपनी के वेबसाइट यानी www.brginfra.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपब्लघ होगी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर के अनुपालन में

> बोर्ड के आदेश अनुसार बी.आर.गोयल इंफ्रास्टक्वर लिगिटेड हस्ते

🐞 नगर पालिक निगम, इन्दीर कार्यातय कार्यपालन यंत्री (जलप्रदाय) संधारण खंड क्यांक-2, नर्मदा परियोजना मुसाखेडी, इन्टौर E-mail: ee2 narmada@rediffmail.com, Ph.: 0731-2712846

निविदा सूचना क्यांक: 61/ ऑनलाइन निविदा आमंत्रण सूचना 2024-25/नर्मदा.परि/न.पा.नि. https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

दिनांक: 05.02.2025 निम्नतिस्तित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण केस्साइट

₩.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	नावदा प्रपन्न का मृत्य एवं EMC	
01 য়খদ আন্তাল	2025_UAD_ 401170_1	होन क्रमंक-17 बार्ड क्रमंक-19 अंतर्गत स्थित मुखर्जी नगर माता मंदिर से मुखर्जी नगर गती नं. 4 तक 110, 160 एम.एम. व्यास की एस.डी.पी.ई. याईम लड्डन प्रदा्य करने, बिश्तने, ओहने, टेस्टिंग, क्रमीजनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्व करना। (सन्पूर्ण सामग्री शेहपुल अनुसार)	1) 03 माह 2) 5,69,040/-	1) ₹11,381/- 2) ₹2,000/-	
02 प्रथम आनंत्रन	स्थम 2025_UAD_ स्थानों पर 63 एम.एम. व्यास की एच.डी.पी.ई. पाईच लाइन		1) 03 माह 2) 7,59,080/-	1) ₹15,182/- 2) ₹ 2,000/-	
03 য়খদ আন্তাল	2025_UAD_ 401170_3	होन क्रमांक-17 वार्ड क्रमांक-19 अंतर्गत कुमेडी कांकड बाबू की होटल से रवि रावल वाली गली तक 110, 160 एम.एम. म्यास की एम.डी.पी.ई. याईम लड्डन प्रट्या करने, बिक्तने, ओडने, टेस्टिंग, क्रमीलनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्व करना। (सम्पूर्ण सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 03 माह 2) 6,81,986/-	1) ₹13,640/- 2) ₹2,000/-	
04 प्रथम आनंत्रन	2025_UAD_ 401170_4	होन क्रमांक-01 वार्ड क्रमांक-16 अंतर्गत क्रमानर, आई.डी.ए. मल्टी (ई.डस्प्यू.एस.) के चास एवं नंदबत में 63 एम.एम. व्यास की एच.डी.ची.ई. वाईप लाइन प्रदाय करने, बिछाने, ओडने, टेस्टिंग, क्रमीशनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्व करना। (शब्यूर्व साथती शेड्युन अनुसार)	1) 03 माह 2) 8,45,395/-	1) ₹16,908/- 2) ₹2,000/-	
05 प्रथम आनंत्रज	401170 5 (01.01 min of (4.614) 2 484 (187 SQ4 607), 2) 7 79		1) 03 माह 2) 7,79,460/-	1) ₹15,589/- 2) ₹2,000/-	
06 प्रथम आनंत्रग	2025_UAD_ 401170_6	होंन क्रमंत-20 वार्ड क्रमंत-05 अंतर्गत चंद्रन नगर गार्डन के चास नवीन हार्ड्ड्रेट मय प्लेटप्लॅमें का निर्माण एवं ट्र्यूब्वेस से 63 एम.एम. व्यास्त की एस.डी.मी.ई. पाईम लाइन प्रद्रमा करने, ब्रिक्डने, जोडने, टेन्टिंग, क्लीशानिंग एवं जी.आई. पाईम व जी.आई. श्येशला सामग्री साहित स्थापना कर अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्ण करना। (सम्पूर्ण सामग्री शेव्यूज अनुसान)	1) 03 मह 2) 7,16,989/-	1) ₹14,340/- 2) ₹2,000/-	
07 प्रथम आनंत्रन	2025_UAD_ 401170_7	झोन क्रमांक-17 बार्ड क्रमांक-18 अंतर्गत अवंतिका नगर में गार्डन के पास से अवंतिका नगर गती नं. 5,6 तक 110, 160 एम.एम. व्यास की एच.डी.पी.ई. चाईन लाइन प्रदाय करने, बिछाने, जोडने, टेस्टिंग, कमीजनिंग एवं अन्य सनस्त कार्यों के साथ पूर्व करना। (सन्पूर्ण सामडी शेंड्युल अनुसार)	1) 03 माह 2) 7,32,819/-	1) ₹14,656/- 2) ₹2,000/-	
08 द्वितीय आनंत्रण	2025_UAD_ 401170_8			1) ₹23,512/- 2) ₹2,000/-	
09 द्वितीय आनंत्रम	2025_UAD_ 401170_9	झोन कनांक-08 वार्ड क्रमांक-28 अंतर्गत राम नगर गती मं. 5,6,7, मैधदूत नगर गती मं. 14 वें 110 एव.एव. व्यास की नवीन एव.डी.पी.ई. पाईच लाइन प्रदाय करने, बिखने, जोडने, टेन्टिंग, कनीशनिंग एवं अन्य समस्त कार्यों के साथ पूर्व करना। (सम्पूर्व सामग्री शेड्युल अनुसार)	1) 03 माह 2) 13,09,580/-	1) ₹26,192/- 2) ₹2,000/-	

निविदा प्रयत्र ऑनलाइन जमा करने की अंतिम दिनांक 22.02.2025, 17:30 क्मे तक

निविदा ऑनलाइन खोलने की दिनांक (ENVELOPEA/B) 24.02.2025 नोट: निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जावेगा,

पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन वंत्री (जलप्रदाव) नगर पालिक निगम, इन्दौ

GORANI INDUSTRIES LIMITED CIN: L28121MP1995PLC009170

Regd. Office: 32-33, Sector-F, Sanwer Road Industrial Area, Indore-452 015 (M.P.)

Phone: 0731-2723202-3, E-mail: gorani.industries@yahoo.com, Website: www.goraniindustries.com

Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months anded 31st December 2024

5.		Quarte	Nine Months Ended	
No.	Particulars	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
1	Total Income from Operations	1293.77	1074.17	3578.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or extraordinary items)	55.85	5.84	70.33
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	55.85	5.84	70.33
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	41.33	4.37	52.04
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	41.33	4.37	52.04
6	Equity Share Capital	536.26	536.26	536.26
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet of the previous year			
8	Earnings per share (in ₹) (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations): (a) Basic : (b) Diluted :	0.77 0.77	0.08	0.97 0.97

Date: 07.02.2025

A. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months ended on 31.12.2024 Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company's Website www.goranlindustries.com.

B. The impact on net profit/(Loss), total comprehensive income or other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of a foot note: N.A.

C. Exceptional items adjusted in the statement of profit and loss in accordance with Ind-AS Rules.



For and on behalf of the Board Nakul Gorani Sanjay Gorani Managing Director DIN: 00055531

दिनांक : 07 फरवरी 2025 स्थान : इंदौर

रितिका झाला कम्पनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी मेंबरशीप नं. ए73846